

June 18, 2019

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Maharashtra

BSE Code: 520051

To, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051, Maharashtra

NSE Code: JAMNAAUTO

<u>Subject-Notice for transfer of equity shares and dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF)</u>

Dear Sir,

Pursuant to the requirements of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisements and Notice sent to the shareholders regarding the unclaimed dividend and equity shares liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund Demat Account.

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera

Company Secretary & Head-Legal

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

PUBLIC NOTICE

Public in general is hereby informed that our Old Rajinder Nagar, Branch at G D Salwan Public School Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 is being merged and shifted to our Patel Nagar, New Delhi Branch. Tentative date of Shifting is 31.08.2019.

(REGIONAL MANAGER)

PUBLIC NOTICE

The Director Town & Country Planning, Haryana has granted license no. 01 of 2019 dated 04.01.2019 for developing Affordable Group Housing Colony on land measuring 5.00 acres in the revenue estate of Village Hayatpur, Sector 93, District Gurugram to M/s Orris Land and Housing Pvt. Ltd., M/s Orris Motels Pvt. Ltd. in collaboration with M/s Pyramid Propmoto Pvt. Ltd. Regd. Office H. No. H-38, Ground Floor, M2K, White House, Sector-57, Gurugram.

Now on our request, DTCP has very kindly accorded in Principle Approval for transfer of licence land in favour of Developer Company i.e M/s Pyramid Propmoto Pvt. Ltd as per Rule 17 of the Haryana Development and Regulations of Urban Area Rules 1976 vide memo no. LC-3775-Asstt. (AK) 2019/13376 dated 07-06-2019. As per policy, we hereby invite objections from the general public in view of this proposed transfer of licence limited to adverse effect on their rights.

The objections if any to the proposed transfer of license may please be filed with o/o STP Gurugram, within 30 days from the publication of this notice.

Authorized Signatory M/s Pyramid Propmoto Pvt. Ltd., Gurugram

Name of the Shareholder



Bharat Rasayan Limited Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008

CIN: L24119DL1989PLC036264 Email: investors.brl@bharatgroup.co.in, Website: www.bharatgroup.co.in NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificate has been reported to be lost misplaced/stolen and the registered shareholder/claimant therefore has requested the Company for issuance of duplicate share certificate in lieu of lost share certificate:

Certificate

No. of

Shares (From - To) 2271741-2271840 VIJAY SHANKAR BAJPAI 100 Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid share certificate should lodge the claim in writing with us at the above mentioned address within 15 days from the publication of this notice. The Company will not thereafter be liable to

entertain any claim in respect of the said share certificate and shall proceed to issue

the duplicate share certificate pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capita

For BHARAT RASAYAN LIMITED

(Nikita Chadha) Company Secretary Memb. No. FCS10121

Distinctive Nos.



New Delhi,

& Debentures) Rules, 2014.

(A Govt. of India Undertaking) Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016, Telefax-011-49857894, -mail: engg.cwhc@cewacor.nic.in, Website: www.cewacor.nic.in

Dt. 13.06.2019 PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

CWC invites online tenders from the contractors for the following works: Last date of on SI. Name of Work Estimated line submission & No. Cost opening of tender (in Lakhs) 01 Providing & laying CC roads at CW, 150.24 16.07.2019 Sitapura - II, Jaipur (Raj.)

Detailed Tender Notice along with conditions of contract and Notice Inviting E-Tender may be seen and downloaded from the CWC website www.cewacor.nic.in or e-tender website www.tenderwizard. com/CWC or CPP Portal http://eprocure.gov.in/epublish/app. Further Corrigendum/Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.cewacor.nic.in or e-tender website www.tenderwizard. com/CWC or CPP Porta http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

Sd/- Chief Engineer

Honda Siel Power Products Limited Regd. Office: 409, Tower B, DLF Commercial Complex, Jasola, New Delhi-110025 Website: www.hondasielpower.com, Email: ho.legal@hspp.com

CIN: L40103DL2004PLC203950 This notice is published in pursuance to the provisions of the Section 124 of Companies Act, 201: and IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, ("the Rules")

The rules, inter-alia, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend ha not been paid or claimed for seven consecutive years, in the name of Investor Education and Protection Fund. Adhering to the various requirements in the said rules, the Company has individually communicated the respective shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the Financial Year 2019-20, at their latest available address, on June 17 2019 for taking appropriate action. The Company has further uploaded full details of suci shareholders and shares on its website at www.hondasielpower.com. The shareholders may kindly note that in case no communication is received from th

concerned shareholders for claim of dividend by, September 15, 2019, the Company shall ransfer such shares to IEPF Authority. For any further gueries on the subject matter and the Rules, shareholders may contact Mr. Sharwan Mangla, M/s Mas Services Limited Unit: Honda Siel Power Products Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110 020, Ph:- 011 26387281/82/83, Fax:- 011 26387384, email:-info@masserv.com. Website: www.masserv.com For and on behalf of

Place: New Delhi HONDA

Date: 17-06-2019

Sunita Ganjoo

STATE BANK OF INDIA

SCO-98, 1st & Second Floor, Sector-16 Market, Faridabad, Ph: 0129-2289222 Fax: 0129-2290222

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of State Bank of India RACPC Cum-SARC Faridabad under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (2) read with (Rule 3) of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated 06.04.2019 calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) Mrs. Amita Gupta and Anuj Kumar Gupta, R/o 156-B, Ashok Enclave Main, Sector-25, Faridabad-121003, to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 17,65,738,00 (Rupees Seventeen lakh sixty five thousand seven hundred and thirty eight only.) as on 04.01.2019 + interest w.e.f. 05.01.2019 together with incidental expenses cost, charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount vide Account No. 30945298157, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Guarantor(s) and the Public in General that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 10" day of June of the year 2019.

The Borrower(s)/ Guarantor(s) in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of State Bank of India for an amount of Rs. 16,58,411.00 (Rupees sixteen lakh fifty eight thousand four hundred and eleven only.) as on 09.06.2019 plus Interest w.e.f. 10.06.2019 together with incidental expenses cost, charges etc.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Property bearing C-193, First Foor, Mayfield Garden, Sector-51, Gurgaon

Date: 16.06.2019 State Bank of India. RACPC-Cum-SARC Place: Faridabad

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI

New Friends Colony Branch, 32, Community Center, New Friends Colony, New Delhi - 110025 Phone No.: 011-26839206, 28898171

Authorised Officer

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 11.07.2017 calling upon the borrower M/s Marica International Private Limited, Director/Guarantor Mr. Naveen Goel & Mr. Sujit Kumar Gopal to repay the amount mentioned in the notice being Working Capital Limit Rs. 95,94,765.98 plus interest w.e.f. 28.06.2017 (Ninety Five Lakh Ninety Four Thousand Seven Hundred Sixty Five and Ninety Eight paise) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/ guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower co. and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 15th day of The borrowers /guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned no

to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount Rs. 69,84,010.80 (Sixty Nine Lakh Eighty Four Thousand Ten and paise Eighty) and interest therein.

Description of the Immovable Property All that part and parcel of the property at Flat No. 163, Sixth Floor, without roof right

Plot No. D-19, Castle Tower No.-1, Block -D, Shiv Kala Luxury Apartment-II, Sector-51, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. owned by Mr. Sujit Kumar Gopal within the registration Registrar/Sub Registrar Gautam Budh Nagar. Bounded: On the North by: Flat No. 162, On the South by: Open at GF,

On the East by: Open Space at GF, On the West by: Flat No. 164 **Authorized Officer** Date: 15.06.2019 Bank of India Place: New Delhi

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India

New Friends Colony Branch, 32, Community Center, New Friends Colony, New Delhi - 110025 Phone No.: 011-26839206, 28898171

POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of India under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 26.03.2019 calling upon the borrower M/s Universal Timber Corporation, Proprietor Mr. Pramod Kumar Upadhyay and Guarantors Mrs. Anupriya Upadhyay to repay the amount mentioned in the notice being Working Capital Limit Rs. 84.24.904.16 plus interest w.e.f 21.02.2019 (Rupees Eighty Four Lakh Twenty Four Thousand Nine Hundred Four and Paise Sixteen) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/ guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 15th day of June The borrowers/guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not

to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount Rs. 83,96,879.16 (Rupees Eighty Three Lakh Nienty Six Thousand Eight Hundred Seventy Nine and Paise Sixteen) and interest therein. Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property at Industrial Plot No. B-12/10, UPSIDC Industrial Area, Surajpur, Site-B, Distt. G.B. Nagar, U.P. owned by Mr. Pramod Kumar Upadhyay within the registration Registrar/Sub Registrar Sadar Gautam Budh Nagar.

Bounded: On the North by: Plot No. B-7, On the South by: 12 meter wide road, On the East by: Plot No. B-12/9, On the West by: Plot No. D-26

Date: 15.06.2019 Authorized Officer Place: New Delhi Bank of India

Phone: +91 129 4292200; Fax: +91 129 2232072,

the shareholders as per below details:

CIN: L74899HR1968PLC004895: Registered Office.: 113/114-A, Sector-24, Faridabad - 121005, Haryana

VOITH PAPER FABRICS INDIA LIMITED

E-mail: voithfabrics.faridabad@voith.com, Website: www.voithpaperfabricsindia.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given to all concerned that 305 (Three hundred five) equity shares of the company, comprised in 9 Share Certificates have been reported lost/misplaced, by

Sr.	Folio	Name of	Certificate	Distinctive N	lo. of Shares	No. of
No.	No.	Members	No.	From	То	shares
1.	J0000344	Juzer T. Rangwala	2882	557876	557925	50
		Munira Juzer Rangwala	3574	592476	592525	50
			9295	981859	981908	50
			20379	2162130	2162179	50
			40319-40322	3377494	3377573	80
2.	B0000117	Bharat B. Jajal	1738	528451	528475	25

The Company will decide to issue duplicate share certificate, in lieu thereof, if no objection is received within 7 days from the date of publication of this Notice.

for Voith Paper Fabrics India Limited

(C.S. Gugliani) Place: Faridabad Company Secretary Date: 17th June, 2019

र्वक आक् इंडिया BOI

Mayur Vihar Branch, 13/14, Balaji Shopping Complex, Pocket-II, Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091 e-mail: mayurvihar.newdelhii@bankofindia.co.in, Ph.: 28822190, 22750372

(Rule - 8 (1)) POSSESSION NOTICE Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Bank Of India, Mayur Vihar Branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01-02-2019 calling upon the borrower Shri Gajendra Sharma S/O Mr. Jaynarayan Sharma and Ms. Shubhi Sharma D/O Mr. Gajendra Sharma to repay the amount mentioned in the notice being Rs.21,14,916.14 (Twenty One Lakhs Fourteen Thousand Nine Hundred Sixteen and fourteen paisa) + further interest w.e.f. 29-01-19 within 60 days from the date of receipt of the said

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 13th day of June of the Year 2019.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India, Mayur Vihar Branch, Delhi for an amount Rs. 21,14,916.14 and interest The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Description of the Immovable Property All that part and parcel of the property consisting of Flat No.TF -1, Yadu Apartment

Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sector -6. (front RHS), Chiranjeev Vihar, Near Chancellor Club, Village Mehrauli City or Town: Ghaziabad, Bounded as: North - Other flat, South - 30 ft Road, East -Other Flat, West - Other Flat Date: 13-06-2019, Place: Delhi Authorised Officer, Bank of India

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF COMMONWEALTH POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED 1. Name of Corporate Person Commonwealth Power (India) Private Limited

2.	Date of Incorporation of Corporate Person	12 th December, 1997
3.	Authority Under Which Corporate Person is Incorporated/ Registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana
4.	Corporate Identity Number of Corporate Parson	U29299DL1997PTC091122
5.		Registered Office: P-24, Green Park Extension, New Delhi – 110016, India.
6.	Liquidation Commencement date of Corporate Person	14 th June, 2019
7.	Name, Address, E-Mail Address,	Manish Kumar Sharma

Email Address : cpipl.liquidation@gmail.com Telephone No.: 9810029555 Regn No.: IBBI/IPA-002/IP-N00671/2018-2019/12143 8. Last Date For Submission of Claims 13th July, 2019

Telephone Number and Registration

Number of Liquidator

Notice is hereby given that Commonwealth Power (India) Private Limited has commenced Voluntary Liquidation on 14th June, 2019. The stakeholders of Commonwealth Power (India) Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before 13th July, 2019 to the Liquidator at the address

mentioned against item 7. The Financial Creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Date: 16th June, 2019

Place: New Delhi

Tender ID No.

Name of Work

Sub Head

Sub Head

Place : Delhi

Estimated Cost

Tender ID No.

Name of Work

Advocate & Insolvency Professional

Sector-14, Rohini, New Delhi - 110085.

Address: B-32, Milansar Apartments, Plot No. 2,

Manish Kumar Sharma (Liquidator)

🖟 सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Date: 13.06.2019

Branch- Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, UP 201014 Ph.: 0120- 2652649 Fax: 0120-2651478, MICR 110025139 IFSC CODE: SYNB0008893

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8 (6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical (whichever is applicable)* possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 24.07.2019, for recovery of Rs. 15,86,633.03/- (Rupees Fifteen Lakh Eighty Six Thousand Six Hundred Thirty Three & Three Paise Only) is due along with interest from 01.03.2019 and costs etc. to the Secured Creditor from Borrower/s:-

Sale Notice for Sale of Immovable Properties

Mr. Asha Kamble W/o Mr. Shubhash Kamble, R/o A-2, 51G Pocket, A-2 LIG Delhi. Mr. Shubhash Sidharam Kamble S/o Sri Hari Shankar Dubey, R/o A-2, 51G Pocket

A-2 LIG Delhi, 110096. The reserve price will be Rs. 9,00,000/- (Rupees Nine Lacs Only) and the

earnest money deposit will be Rs. 90,000/- (Rupees Ninety Thousand Only).

Description of Property

Flat no. 154, Ground Floor, Nyay Khand-III, Indirapuram, Ghaziabad 201014. Owned by Asha Kamble and Subhash Sidharam Kamble. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in

Secured Creditor's website i.e. www.syndicatebank.in Authorised Officer

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L35911HR1965PLC004485 Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana

Corporate Office: Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037 Telephone: +91 11 45504550, Fax: +91 11 45504551 Website: www.jaispring.com.

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2011-12 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority Notice is hereby given that pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the

NOTICE

Act") 2013, if a dividend remain unclaimed for a period of seven years then such dividend is required to be statutorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government. Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF: Particulars of Transfer Due Date of Transfer Date of Claim to be

to IEPF	to IEPF	forwarded to the Company			
Unclaimed Dividend	September 18, 2019	On or before			
FY 2011-12 (Final)		September 13, 2019			
Further, please note that in	terms of Section 124(6) of	the Companies Act, 2013 rea			
with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Au					

to transfer all the Equity Shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for consecutive seven years to IEPF Demat Account on the aforesaid due date. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the

Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required

The details of such unclaimed or unpaid dividends are available on Company's website viz. www.jaispring.com. The shareholders are hereby requested to check and to take immediate actions to claim their pending dividend(s) before transfer of unclaimed dividend

amount to IEPF. We request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email: A formal letter duly signed by all the joint holders, if any Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and

Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc. You are requested to note that if dividend is not encashed or claimed within the stipulated

time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares to the IEPF Demat Account by the aforesaid due date without any further notice. Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Demat Account. you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount(s) and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend

are available on the website i.e. www. iepf.gov.in. In case of any queries on the subject matter, shareholders may write to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following addresses so that it should

To Company To Registrar & Share Transfer Agent Jamna Auto Industries Limited Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037

reach on or before September 13, 2019:

Contact No. - 011-45504550

Place: New Delhi

Date: June 17, 2019

Email - praveen@jaispring.com

Skyline Financial Services Private Limited D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 Ph. No.: 011-40450193-97 Email: parveen@skylinerta.com; grievances@skylinerta.com Contact Person: Mr. Parveen Sharma

For Jamna Auto Industries Ltd Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal



Date: 17-06-2019, Place: New Delhi

Honda Siel Power Products Limited

(A Premier Public Sector Bank)

Zonal Office - South, 1st Floor, Corporation Bank Building, 1, Faiz Road, E-mail: cb8821rec@corpbank.co.in, Website: www.corpbank.com

Corporation Bank

Jhandewalan, New Delhi-110005, Ph.: 011-28755514 / 28754642, 7042597411

Zonal Office - South, 1st Floor, Corporation Bank Building, 1, Faiz Road,

Jhandewalan, New Delhi-110005, Ph.: 011-28755514 / 28754642, 7042597411

E-mail: cb8821rec@corpbank.co.in, Website: www.corpbank.com

Corporation Bank

SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTY

LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS 18-07-2019 UPTO 05.00 P.M.

E-Auction Sale Notice for Sale of movable Assets under Seizure Notice. A sale by E-auction of the movable Properties under hypothecation to Corporation Bank, which are described in the schedule hereto. The below movable secured assets will be sold on "As is where is", "As is What is" and "whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Corporation Bank from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder-DESCRIPTION OF MOVARIE VEHICLE

	DESCRIPTION OF MOVABLE VEHICLE						
S. No.	Name of the Branch Phone Number and Email ID	Borrower's Name	Property Details	Outstanding Amount Date of Demand Notice	Reserve Price EMD Bid Increment	Date & Time of Auction	EMD Submission Account Details & IFSC Code
	KUMAR DIXIT, Mob. +91- 9671734498, Ph: 011-26303231	Infracon Private Limited Director: 1. Mr. Dhrub Singh, 2.	Toyota Corolla Altis with Registration number- DL-12-CD-1480, Chassis number- MBJ53NEE004014582, Yr of Manufacture-07/2013.	notice dated 03.04.2019 plus		19-07-2019 from 11.45 am to 1.15 pm with unlimited extensions of 10 Minutes	A/C No: 510101002220260 IFSC Code: CORP0001538
	For detailed to make and an edition of the color of the first considered in his constant of the detailed to the first constant of the detailed						

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vibha_interiors_and_infracon_private_limited.pdf

Date: 17-06-2019, Place: New Delhi Authorised Officer, Corporation Bank

> (A Premier Public Sector Bank) SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTIES

LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS 18-07-2019 UPTO 05.00 P.M.

E-Auction Sale Notice for Sale of Movable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described movable property hypothecated / charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Corporation Bank (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on dates mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Corporation Bank from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned here under:

DESCRIPTION OF MOVABLE VEHICLE

S. No.	Name of the Branch Phone Number and Email ID	Borrower's Name	Property Details	Outstanding Amount Date of Demand Notice	Reserve Price EMD Bid Increment	Date & Time of Auction	EMD Submission Account Details & IFSC Code	[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Before the Central Government Regional Director, Northern Region, New Delhi In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13 (4) of the
1	Palwal Branch, Mr. Priyamjeet Singh Chauhan, Mob: 9971101518 Ph no. 01275- 2 4 4 0 5 0 Email ID- cb1245@corpbank.co.in	S/o Haldi Ram Guarantors:- Mr. Mahender	Maruti Swift Dezire Tour Deisel BS/IV/2013 with Registration No. HR73-6099, Chassis No. MA3FSEB1S00459104	₹ 4,94,465.00 as per demand notice dated 30.07.2014 Plus further interest, expenses, cost charges etc.	₹ 20,000/- ₹ 5,000/-	19-07-2019 from 11.45 am to 1.15 pm with unlimited extensions of 10 Minutes	A/C No: 510101003593559 IFSC Code: CORP0001245	Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of Moonwalk Infraprojects Private Limited (CIN: U70109DL2012PTC242171) having its registered office at 7198,GF, Qutub Road, Pharganj, Central Delhi, Delhi-110055, India
2	Kumar Das Mob: 9643436787, Ph: 011-29535449, 29535450		Engine No. J02780, Chassis No. MAT446246FRC00168, Year of manufacture- 03/2015	₹ 2,83,54,794.63 as on 22.05.2019 Plus further interest, expenses, cost charges etc	₹ 35,000/-	19-07-2019 from 11.45 am to 1.15 pm with unlimited extensions of 10 Minutes	A/C No: 510101002242027 IFSC Code: CORP0001688	Notice is hereby given to the General Public that the Company propose to make application to Central Government under Section 13 (4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the EGM held on 15-06-2019 to enable the Company to change its Registered office from the "National Capital Territory of Delhi to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to delivered or send by registered post of his/her objections supported by affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition the Regional Director at Northern Region, B-2 Wing, 2" Floor Paryavar Bhawan CGO, Complex, New Delhi -110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company
3	Palwal Branch, Mr. Priyamjeet Singh Chauhan, Mob: 9971101518 Ph no. 01275- 244050 Email ID- cb1245@corpbank.co.in	Nanhe Ram Guarantors:- Pramod Kumars/o Pratap Singh	Toyota Etios GD/2013 with Registration No. HR-30M-4784, Chassis No. MBJB4ZBT6000662320913, Year of manufacture-03/2013.	₹ 5,09,313.00 as per demand notice dated 05.03.2016 Plus further interest, expenses, cost charges etc.	₹ 14,000/- ₹ 5.000/-	19-07-2019 from 11.45 am to 1.15 pm with unlimited extensions of 10 Minutes	A/C No: 510101003593559 IFSC Code: CORP0001245	

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m_d_metro_transit_pvt_ltd_0.pdf

https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/raju.pdf, https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/tarif_singh.pdf

Authorised Officer, Corporation Bank

Horticulture Department NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL Palika Kendra, New Delhi-110001 e-Procurement Tender Notice

M/o Parks and Garden 2019-20. Name of Work Sub Head Annual Rate Contract for Selection No. 1 Grass Carpet. **Estimated Cost** Rs. 9,99,000/-Tender ID No. 2019 NDMC 174258 1

2019 NDMC 174259 1

Name of Work M/o Parks and Garden 2019-20. Sub Head Annual Rate Contract for Palms. **Estimated Cost** Rs. 9.99,283-Tender ID No. 2019 NDMC 174255 1

Annual Rate Contract for Winter/Summer annual Seedlings. Sub Head **Estimated Cost** Rs. 20,90,793/-: 2019 NDMC 174257 1 Tender ID No. Name of Work M/o Parks and Garden 2019-20.

M/o Parks and Garden 2019-20.

Sub Head Annual Rate Contract for Winter/Summer annual Bulbs. **Estimated Cost** Rs. 14,93,400/-Tender ID No. 2019 NDMC 174251 1 M/o Parks and Garden 2019-20. Name of Work

2019 NDMC 174244 1

Bougainvillea & Roses.

Rs. 14,95,160/-

Annual Rate Contract for Semi Grown Trees. Sub Head Rs. 14,99,565/-Estimated Cost Tender ID No. : 2019 NDMC 174252 1 M/o Parks and Garden 2019-20.

M/o Parks and Garden 2019-20.

Rs. 23.86.365/-Estimated Cost Date of release of tender through e-procurement solution: 15.06.2019 Last date/time for receipt of tenders through e-procurement solution

Annual Rate Contract for Topiary, Cyprus, Junipers,

Annual Rate Contract for Ficus Species.

Further details can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in Note: - To participate in e-tender in NDMC registration with e-tendering system Sd/-Government of NCT of Delhi is mandatory. Director(H) To be The Global Benchmark for a Capital City

FORM NO INC-26

of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be lelivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to he Regional Director at Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor Paryavaran Bhawan CGO, Complex, New Delhi -110003 within fourteen days of the late of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: 7198, GF, Qutub Road, Pharganj, Central Delhi, Delhi-110055

For and on behalf of the Applicant For Moonwalk Infraprojects Private Limited Manish Rustagi Date: 17-06-2019 Director DIN:07178440

SBI STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch, Retail

1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi - 110015, Ph.: 25419177, 25412977, e-mail: sbi.05169@sbi.co.in CORRIGENDUM This is in reference to the advertisement

published in this newspaper on 07.06.2019 for E-Auction Sale Notice in which the property of M/s Allied Engineering Solutions was to be eauctioned on 10.07.2019, please be informed that this e-auction stands withdrawn.

Date: 17-06-2019,

Place: New Delhi

Sd/- Authorised Officer.

State Bank of India

NDH SECURITIES & FINANCE PRIVATE LIMITED CIN NO: U65923DL1995PTC065050 302, Press complex, E-13, Jawahar park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 Email Id: ndhsfpltd@gmail.com Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday the 14th Day of June, 2019 at

11:30 A.M. at its Registered Office to publish the notice of appointment of Mrs. Anjali Goyal made by company in its Extra Ordinary General Meeting held on Dated 1st February, 2018. Kamlesh Singh Rawat Place: Delhi (Director) Date: 14/06/2019 Din No.: 02163076

FORM INC-26 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act,

In the matter of VARUN BUILDTECH PRIVATE LIMITED (CINU45400DL2007PTC168342) having its registered office at B-7

Lower Ground Floor, Ashoka Niketan, Delhi 110092 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 (4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the

2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the EGM held on 17th Day of June, 2019 to enable the company to change its Registered office from the "NCT of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by

an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2" Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 with a copy of applicant Companies at its registered office situated at B-7, Lower Ground Floor, Ashoka Niketan, Delhi-110092, India within Fourteen days from the date of publication of this notice. For and on behalf of Board of Directors

VARUN BUILDTECH PRIVATE LIMITED

Vinod Sharma Date: 17.06.2019 (Director) Place: Delhi R/O: H-96, Shastri Nagar, Meerut -250004, Uttar Pradesh, India

DIN: 03561744

जनसत्ता ब्यूरो जयपुर, १७ जून।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी पर अब पार्टी सख्त हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल ने जयपुर की प्रत्याशी रही ज्योती खंडेलवाल और प्रदेश सचिव धूप सिंह पूनिया को कारण बताओ नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा है। इन दोनों नेताओं ने पार्टी की हार के लिए अपनों को ही जिम्मेदार ठहरा कर बयानबाजी की थी। इससे पहले प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने हार को लेकर बयानबाजी नहीं करने की नसीहत पार्टी नेताओं को दी थी।

प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल का कहना है कि आलाकमान की नसीहत के बाद भी कई नेताओं ने मीडिया में बयान जारी कर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने जयपुर की पूर्व मेयर और लोकसभा में प्रत्याशी रही ज्योती खंडेलवाल के साथ ही प्रदेश सचिव धूप सिंह पूनिया को भी नोटिस जारी किया है। पूनिया पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट जारी की जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। ज्योती खंडेलवाल का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं की। नोटिस का जवाब तय समय में दिया जाएगा। इससे पहले खंडेलवाल ने अपनी हार के लिए जयपुर के कई बड़े नेताओं की कार्यशैली को कठघरे में खडा करते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए जांच की मांग आलाकमान से की थी। इससे पहले कांग्रेस सरकार के दो मंत्रियों उदयलाल आंजना और रमेश मीणा ने हार की जिम्मेदारी तय करने की आवाज उठाई थी। इसी दौरान हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया ने अपना इस्तीफा दे दिया था।

गुजरात: आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंची कांग्रेस

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

गुजरात कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर-के राज्य में दो राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। ये दोनों सीटें भाजपा प्रमुख अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर खाली हुई हैं।

अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर साथ-साथ चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अधिवक्ता वरुण के चोपड़ा के जरिए दायर याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ के सामने मंगलवार को उल्लेख किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा 15 जून को जारी प्रेस नोट में पांच जुलाई को दोनों सीटों पर चुनाव कराने का कार्यक्रम बताया गया था।शाह के गांधीनगर और स्मृति के अमेठी लोकसभा सीटों से चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं।

त्रिपुरा में करोड़ों की परियोजनाओं को मंज्री

अगरतला , 17 जून (भाषा)।

बैंक एशियाई विकास (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजुरी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि एडीबी 1650 करोड़ रुपए देगा, जिसमें से 80 फीसद राशि अनुदान के रूप में होगी और राज्य सरकार को 20 फीसद कर्ज का भुगतान करना होगा। अधिकारी ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, 'यह त्रिपुरा में अपनी तरह की पहली एडीबी सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजना है। परियोजनाओं से सभी जिला मुख्यालय कस्बों को आधुनिक बनाने और भविष्य में पर्यटन एवं व्यापार की संभावनाओं

को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।'



दिनांक: 17.06.2019 पत्रांक: 506/AC-14/20 शुद्धि पत्र

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 469/ए० सी0-14/18 दिनांक 10.06.2019 के क्रमांक-2 पर सामृ०स्वा0 केन्द्र सुनवा अयोध्या के अवशेष निर्माण कार्य हेतु टू बिड पद्धति पर ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसे अपरिहार्य कारणोंवश ई—निविदा को निरस्त किया जाता है।

नोट- उक्त निविदा से सम्बन्धित सूचना कार्यालय परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई-फैजाबाद या परिषद की वेबसाइट www.upavp.in एवं http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। परियोजना प्रबन्धक

होण्डा सियल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंजी. कार्या, : 409, टॉवर बी, डीएलएफ कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, जसोला, नई दिल्ली - 110 025

वै बसाइटः www.hondasielpower.com, ई – में ल: ho.legal@hspp.com सीआईएन: L40103DL2004PLC203950

ह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और आईईपीएफ (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरप भीर वापसी) नियम, 2016, संशोधित ("नियम"), के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की गई है। न्य बातों के साथ, नियमों में, उन सभी अंशो को जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों से लाभांश व ातान या दावा नहीं किया गया है, विनिधानकर्त्ता, शिक्षा एवं संरंक्षा कोष के नाम पर हस्तांतरण करने र प्रावधान निहित है। उक्त नियमों की विभिन्न आवश्यकताओं के पालन हेतु कंपनी ने संबंधिर प्रशंघारकों को, जिनके अंश वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरिर pरने के लिए उत्तरदायी हैं, उचित कार्यवाई के लिए, 17 जून, 2019 को उनके नवीनतम उपलब्ध पते र व्यक्तिगत रूप से सुचित किया है। कंपनी ने इन अंशधारकों और अंशो का पूरा विवरण अपनी बसाइट www.hondasielpower.com पर अपलोड कर दिया है।

शघारक कपया ध्यान दें, यदि 15 सितम्बर, 2019 तक अंशघारकों से लागांश के दाये संबंधित कोई बना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी ऐसे अंशो को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर देगी . षय वस्तु और नियमों पर किसी भी अन्य जानकारी के लिए अंशघारक श्री श्रवण मंगला, मैसर्स मास तर्विसेज लिमिटेड, यूनिटः होंडा सियल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टी –34, द्वितीय तल, ओखला ग्रीद्योगिक क्षेत्र, चरण-॥ नई दिल्ली-110020, फोन-011 26387281 ∕ 82 ∕ 83, फैक्स: - 011 8387384, ईमेलः — Info@masserv.com, वेबसाइटः www.masserv.com से संपर्क कर सकते हैं । होण्डा सियल पॉवर प्रोडक्टस लि

तिथि: 17-06-2019 स्थानः नई दिल्ली

HONDA

सुनीता गंज कम्पनी सैक्रेटरी

के लिए तथा उनकी ओर से

सार्वजनिक सूचना

निदेशक टाउन एवं कंट्री प्लानिंग, हरियाणा ने मैं. ओरिस लैंड एंड हाउसिंग प्रा. लि., मैं. ओरिस मोटेल प्रा. लि. की कोलोब्रेशन में. पिरामिड प्रोपमोटो प्रा. लि. के साथ, रजिस्टर्ड ऑफिस: हा॰ न॰ एच 38, ग्राऊंड फ्लोर, एम 2 के वाइट हाउस, से॰ 57, गुरुग्राम सेक्टर 93, गुरुग्राम रेवेन्यु इस्टेट ऑफ़ विलेज हयातपुर में भूमि माप 5 एकड़ जमीन पर अफोर्डेबल युप हाउसिंग कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस सं. 01, दिनांक 04-01-2019 की मंजूरी प्रदान की है।

अब, कंपनी के अन्रोध पर डी.टी.सी.पी, हरियाणा ने वाइड मेमो नं. ऐल सी-3775-Asstt. (AK) 2019/13376 दिनांक 07-06-2019 के माध्यम से हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियम नियमावली 1976 के नियम 17 के अनुसार लाइसेंस में हस्तांतरण के लिए में. पिरामिड प्रोपमोटो प्रा. लि. को उक्त लाइसँस के अंतरण के लिए अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। नीति के अनुसार हम इस प्रस्तावित परिवर्तन के उपलक्ष्य में आम जनता की आपत्तियां को आमंत्रित करते हैं। लाइसेंस के प्रस्तावित अंतरण पर आपत्ति यदि कोई हो, इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर o/o एस.टी.पी. ग्रूग्ग्राम में दाखिल की जा सकती है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में. पिरामिड प्रोपमोटो प्रा. लि., गुरुग्राम

जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

सी आई एन : L14106UP1995PLC019017 पंजीकृत कार्यालयः सेक्टर-128, नोएडा-201304, उ.प्र, दुरभाष :+91(120)2470800 **कॉर्पोरेंट कार्यालय**ः 'जेए', हाउस, 63,बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—110057 दुरभाष :+91(11) 49828500 फैक्स :+91(11) 26145389

वेबसाइट : www.jalindia.com ई मेल : jal.investor@jalindia.co.in

अंशधारकों को सूचना

विषय : कंपनी के लाभांश एवं इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

एतद द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकत. लेखा परीक्षा. स्थानांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और उनके सिवा तत्पश्चात संशोधित (नियमी) के साथ पढ़े जाते हये कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) की धारा 124(है) के अनुरूप सुचित किया जाता है कि

कैंपनी को सभी शेयरों को. जिनके संबंध में लगातर 7 सालों से लाभोंश का दावा नही किया गया है. आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करना पड़ रहा है। अंशधारकों का संपूर्ण विवरण, जिन्होने अभी तक वित्तीय वर्ष 2011–12 (अंतिम लाभांश) के लाभांश को नहीं भुनाया है जो लगातर 7 सालों से बेदावित रह रहा है और इसलिए जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में)हस्तांतरित होने के लिये उत्तरदायी हैं,की सूची कंपनी की वेबसाइट www.jalindia.com पर निवेशक अनुभाग के अंर्तगत प्रदर्शित की गई हैं। कंपनी ने संबंधित अंशधारको को, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत संप्रषेण भेजा :

और वित्तीय वर्ष 2011–12 (अंतिम लाभांश) के लाभांश को 15.10.2019 तक अथवा उससे पहले भूनाने की सलाह दी है जो अन्यथा कंपनी द्वारा वैध दावे की अनुपस्थिति में आईईपीएफ निधि मे 28.10.2019 को हस्तांतरित कर दिया जायेगा । उनके संबंधित शेयरों को भी उक्त नियमों की आवश्यकता के अनुसार बिना किसी अग्रिम सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में

आईईपीएफ / आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित दोनों बेदावा लाभांश एव शेयर उनके जमा सभी लागों सहित,अगर कोई हो,संबंधित अंशधारक द्वारा आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रक्रिया का पालन करके वापिस लिये जा सकते हैं ।

अंशधारक अपना कोई भी प्रश्न, कंपनी को ई मेल : jalinvestor@jalindia.co.in पर अथव कंपनीज रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, 2ई/21,

झंडेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली — 110055, दूरभाष संख्या 91—11—42541232 , 23541234, ई—मेल info@alankit.com पर प्रेषित कर संकते हैं ।

स्थान ःनई दिल्ली

एम. एम. सिब्बल संयुक्त अध्यक्ष एव कंपनी सचिव

कृते जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

दिनांक : 18.06.2019 (सदस्यता क्रमांक एफ सी एस–3538)

✓ ✓ ✓ ✓ JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Corporate Office: Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037

> Telephone: +91 11 45504550, Fax: +91 11 45504551 Website: www.jaispring.com.

NOTICE Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2011-12 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Notice is hereby given that pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") 2013, if a dividend remain unclaimed for a period of seven years then such dividend s required to be statutorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government

Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF:					
Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company			
Unclaimed Dividend	September 18, 2019	On or before			

Further, please note that in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required o transfer all the Equity Shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for consecutive seven years to IEPF Demat Account on the aforesaid due date. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account

The details of such unclaimed or unpaid dividends are available on Company's website viz. www.jaispring.com. The shareholders are hereby requested to check and to take immediate actions to claim their pending dividend(s) before transfer of unclaimed dividend amount to IEPF. We request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email:

A formal letter duly signed by all the joint holders, if any Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and

Place: New Delhi

Date: June 17, 2019

Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc. You are requested to note that if dividend is not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares to the IEPF Demat Account by the aforesaid due date without any further notice.

Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Demat Account, you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount(s) and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www. iepf.gov.in.

n case of any queries on the subject matter, shareholders may write to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following addresses so that it should each on or before September 13, 2019

each of or before deptember 10, 2019.						
To Registrar & Share Transfer Agent						
Skyline Financial Services Private Limited						
D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area,						
Phase-1, New Delhi-110020						
Ph. No.: 011-40450193-97						
Email: parveen@skylinerta.com;						
grievances@skylinerta.com						
Contact Person: Mr. Parveen Sharma						

For Jamna Auto Industries Ltd Praveen Lakhera

Company Secretary & Head-Legal

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

रिडेम्पशन एवं रिकार्ड तिथि के लिए सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी किये गये बंधपत्रों की निम्नलिखित श्रृंखला हेतु रिडेम्पशन प्राप्त करने के हकदार बंधपत्रधारकों के लिए निम्नांकित रिकार्ड तारीख (खों) का निर्धारण किया गया है :-

क्र.सं.	बॉण्ड विवरण	रिडेम्पशन भुगतान की तारीख	रिकार्ड तारीख
	8.75: (कर योग्य) सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल बॉण्ड्स–ए जे–॥ जी सिरीज, आईएनई 114ए07505	15.09.2019	23.08.2019

सभी बॉण्डधारक, जिनके पास बॉण्ड इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पते, बैंक ब्यौरे, अधिदेश, ई सी एस अधिदेश, पीएएन (पैन) आदि में परिवर्तन से संबंधित अनुरोध ब्यौरे को संबंधित डिपोजिटरी भागीदार को भेज दें । रिकॉर्ड तिथि पर जिन बंधपत्रधारकों के नाम डिपोजिटरी द्वारा भेजी गई सूची में हिताधिकारी स्वामी के रूप में शामिल कर लिया जाता है वे ही संबंधित रिडेम्पशन प्राप्त करने के

कपया नोट करें कि इन बॉण्डों पर विमोचन की तिथि से गना बंद हो जाएगी।

स्थानः नई दिल्ली (एम सी जैन) कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव दिनांक: 13.06.2019

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नम्बर: L27109DL1973GO1006454, वेबसाइट: www.sail.co.in हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल



<u>भारतीय स्टेट बैंक</u> आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद एससीओ-98, 1ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद,

फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी–कम–एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 6.4.2019 जारी कर ऋणधारक(कों)/ गारन्टर(रों) श्रीमती अमीता गुप्ता तथा अनुज कुमार गुप्ता, निवासी 156-बी, अशोक एन्कलेव मैन, सेक्टर-25, फरीदाबाद-121003 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 04.01.2019 को रु. 17,65,738.00 (रुपये सत्तरह लाख पैंसट हजार सात सौ अड़तीस मात्र)+4.1.2019 से ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) खाता सं. 30945298157 इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 10 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 9.6.2019 को रु. 16,58,411.00 (रुपये सोलह लाख अन्डावन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) तथा 10.6.2019 से अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति सं. सी-193, प्रथम तल, मेफिल्ड गार्डन, सेक्टर-51, गुड़गांव

तिथि: 16.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी स्थानः फरीदाबाद

बँक ऑफ़ इंडिया BOI

न्यू फ्रेन्डस कालोनी शाखा 32, कम्यूनिटी सेन्टर

न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली-110025, फोन नं. 011-26839206, 28898171 कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इण्डिया** की और से वित्तीय आस्तिय का प्रतिभृतिकरण और पुनगर्जन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के संपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26.03.2019 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी मैसर्स यूनिवर्सल टिम्बर कारपोरेशन, प्रोपराइटर श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय एवं गारंटर श्रीमती अनुप्रिया उपाध्याय को नोटिस में वर्णित कार्यशील पूंजी की सीमा की वकाया राशि रु. 84,24,904.16 / — (रुपए चौरासी लाख चौबीस हजार नौ सौ चार एवं सोलह पैसे मात्र) एवं दिनांक 21.02.2019 से आगे के ब्याज सहित उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था । ऋणी / गांरटर द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी / गारंटर और जन

13(4) के संपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक 15 जून, 2019 को ले लिया है । ऋणी / गांरटर्र एवं जन साधारण क्रो इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी

साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा

लेन–देन बैंक ऑफ इण्डिया के बकाया रु. 83,96,879.16/— (रुपए तिरासी लाख छियानबें हजार आठ सौ उन्यासी एवं सोलह पैसे मात्र) व इसके आगे के ब्याज के अधीन होगा । अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ औद्योगिक प्लॉट नं. बी-12/10, यूपीएसआईडीसी औघोगिक क्षेत्र सूरजपुर, साईट—बी, जिला— जी.बी. नगर, यू.पी. जो कि श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय द्वारा पंजीकृत रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार सदर गौतम बद्ध नगर के स्वामित्व में है।

चोहददीः उत्तर में: प्लॉट नं. बी-7, दक्षिण में: 12 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व में: प्लॉट नं बी-12 / 9. **पश्चिम में**: प्लॉट नं. डी-26

दिनांक : 15.06.2019 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इण्डिया



कॉपॉरेट व्यक्ति का नाम

न्यू फ्रेन्डस कालोनी शाखा 32, कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली—110025,

फोन नं. 011-26839206, 28898171

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इण्डिया** की और से वित्तीय आस्तियं का प्रतिभृतिकरण और पुनगर्वन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के संपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.07.2017 को एक माँग नोटिस जारी करवे ऋणी मैसर्स मैरिका इण्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, निदेशक / गांरटर श्री नवीन गोयल एवं श्री सुजीत कुमार गोपाल को नोटिस में वर्णित कार्यशील पूंजी की सीमा की बकाया राशि रु. 95,94,765.98 / - (रुपए पन्चानवे लाख चौरानवे हजार सात सौ पैसंठ एवं अन्ठानवे पैसे मात्र) एवं दिनांक 28.06.2019 से आगे के ब्याज सहित उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था ।

ऋणी / गांरटर द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी / गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक 15 जून, 2019 को ले लिया है ।

ऋणी / गांरटर एवं जन साधारण क्रो इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया के बकाया रु. 69,84,010.80/- (रुपए उन्हत्तर लाख चौरासी **हजार दस एवं अस्सी पैसे मान्न)** व इसके आगे के ब्याज के अधीन होगा ।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ फ्लैट नं. 163, छठां तल, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं. डी–19, कॉसल टॉवर नं.– 01, शिव काला लक्जरी अपार्टमेन्ट–॥ सैक्टर-51, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. जो कि श्री सुजीत कुमार गोपाल द्वारा पंजीकृत रजिस्ट्रार / उप–रजिस्ट्रार सदर गौतम बुद्ध नगर के स्वामित्व में है। चोहददीः उत्तर में: फलैट नं. 162, दक्षिण में: जी एफ में खुला, पूर्व में: जी एफ में खुला स्थान, पश्चिम में: फलैट नं. 164

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 15.06.2019 स्थान : नई दिल्ली बैंक ऑफ इण्डिया

कॉपॉरेट व्यक्ति के गठन की तिथि 12 दिसम्बर, 1997

फार्म ए सार्वजनिक उद्धोषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का विनियम 14} कॉमनवेल्थ पॉवर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों के ध्यानार्थ

कॉमनवेल्थ पॉवर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

3 .	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉपॉरेट व्यक्ति गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली		
4 .	कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U29299DL1997PTC091122		
5 .	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : पी—24, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली — 110016, इंडिया		
6 .	कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ तिथि	14 जून, 2019		
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर एवं पंजीकरण संख्या	मनीष कुमार शर्मा एडवोकेट एण्ड इन्सॉलवेंसी प्रोफेशनल पता : बी—32, मिलनसार अपार्टमेंटस, प्लॉट नं. 2, सैक्टर—14, रोहिणी, नई दिल्ली— 110085 ई—मेल पता : cpipl.liquidation@gmail.com सर्म्पक नं. : 9810029555 पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00671/ 2018-2019/12143		

8. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 13 जलाई, 2019 एतदृहारा सूचित किया जाता है कि कॉमनवेल्थ पॉवर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 14 जून, 2019. को स्वैच्छिक परिसमापन प्रारंभ किया है। कॉमनवेल्थ पॉवर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के स्टेक्होल्डरों को एतब्द्वारा मद 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 13 जलाई, 2019. को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना

होगा। अन्य सभी स्टेकहोल्डर व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

तिथि : 16 जून, 2019 स्थान : नई दिल्ली

SRS LIMITED

Regd. & Corporate Off: SRS Multiplex, 2nd Floor, City Center, Sector -12, Faridabad, NCR-Delhi -121007 E-mail:compliances@srsparivar.com, Website- www.srsparivar.com, CIN - L74999HR2000PLC040183 Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter / nine month ended 31st December 2018 (₹ in Lacs, except per equity share data)

				Standa	lone			
S.	2.0.0	Qua	arter Ended		Half Yea	r Ended	Year Ended	
No.	Particulars	31-Dec-18	30-Sep-18	31-Dec-17	31-Dec-18	31-Dec-17	31-Mar-18	
			Unaudited		Unau	dited	Audited	
1.	Total Income From Operations (net)	1,700.88	2,128.42	2,338.90	6,472.79	8,847.81	11,372.05	
2.	Net Profit / (Loss) after Tax from continuing operations	(51.79)	(1,611.84)	254.99	(5,980.59)	(4,845.81)	(7,414.74)	
3.	Net Profit / (Loss) after Tax from discontinued operations			(65,541.29)		(85,880.61)	(138,690.37	
4.	Net Profit / (Loss) after Tax	(51.79)	(1,611.84)	(65,286.30)	(5,980.59)	(90,728.00)	(146,105.11	
5.	Total Comprehensive Income for the period	(50.38)	(1,610.44)	(65,286.82)	(5,976.37)	(90,728.00)	(146,087.41	
6.	Equity Share Capital	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	
7.	Other Equity		1				(125,598.73	
8.	Earning Per Share (of Re 10/- each) Basic : Diluted :	(0.02) (0.02)	(0.58) (0.58)	(23.44) (23.44)	(2.15) (2.15)	(32.57) (32.57)	(52.44) (52.44)	

2018 filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations 2015 The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter / nine months ended 31st December 2018 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com/www.nseindia.com) and Company's website www.srsparivar.com. For SRS Limited Place: Faridabad (Raju Bansal) Date: 15th June 2019 Whole Time Director

एनडीएच सिक्युरिटीज एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड CIN NO: U65923DL1995PTC065050 302, प्रेस कॉम्प्लैक्स, ई-13, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

Email Id: ndhsfpltd@gmail.com एतद्द्वारा सूचित किया जात है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 जून, 2019 को 11.30 बजे पूर्वा. में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें दिनांक 1 फरवरी, 2018 को आयोजित उसकी असाधारण आम सभा में कम्पनी द्वारा की गई श्रीमती अंजलि गोयल की नियुक्ति की सूचना प्रकाशित की जायेगी।

कमलेश सिंह रावत (निदेशक) तिथि: 14.6.2019 Din No.: 02163076

unitech यूनीटेक लिमिटेड CIN: L74899DL1971PLC009720

पंजीकृत कार्यालयः बेस्मेन्ट, 6, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 टेली/फैक्स:- 11-26857338,

E-mail: share.dept@unitechgroup.com

[31 मई, 2019 को प्रकाशित सुचना के

अधिक्रम में]

Web: www.unitechgroup.com बैठक का स्थगन

सूचित किया जाता है कि 30 मई, 2019 को मूल रूप से निर्धारित कम्पनी की ऑडिट कमिटी की बैठक जो 15 जून, 2019 के लिये स्थगित कर दी गई थी, स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या मे अनपलब्धता के कारण पनः स्थगित कर दी गई थी। तदनुसार, कम्पनी के अध्यक्ष ने उस तिथि को पर्याप्त संख्या में निदेशकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के बाद बोर्ड की बैठक जो मलरूप से 30 मई. 2019 के लिए निर्धारित थी तथा जिसे 15 जुन के लिये स्थगित कर दिया गया था, को फिर से पनः मंगलवार, 25 जन, 2019 तक के लिये स्थगित कर दिया है जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। पुनः बोर्ड की बैठक के उपरोक्त स्थगन को देखते

हुए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्सायडरों द्वारा टेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो बंद रहने की अवधि जो 4 अप्रैल, 2019 को शुरू हुई थी, अब 25 जुन, 2019 को इन परिणामों को सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद

निवेशकगण www.unitechgroup.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com भी देख सकते हैं। युनिटेक लिमिटेड के लिये

रमेश चन्द्रा 15 जून, 2019

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम. 2013. की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

Date: 18/06/2019

Place: Noida

मूनवॉक इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन U70109DL2012PTC242171) के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 7198 जीएफ, कृतुब रोड, फरगंज, मध्य दिल्ली, दिल्ली – 110055 में रिथत है

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 15 जून 2019 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए— 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर स्पूर्व कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपूर्व करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए 7198, जीएफ, कृत्ब रोड, फरगंज, मध्य दिल्ली, दिल्ली - 110055

कृते एवं हिते आवेदक मूनवॉक इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मनीय रूस्तगी तिथि : 17-06-2019 निदेशक

स्थान : दिल्ली

39.00.000/- के ऋण के रूप में

स्थानः फरीदाबाद

तिथि: 18.06.2019

हस्ता. / -

(परिसमापक)

मनीथ कुमार शर्मा

22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001

Tel: +91-011-43502990, 0120- 2462673, 0120-4842400 Fax: 0120-2462675 Email: compsect@udtltd.com Website: http://www.udtltd.com/ POSTAL BALLOT NOTICE Members are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 of the Companies Act,

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED

CIN: L29199DL1985PLC015796

Registered Office:- 139A, First Floor, Antriksh Bhawan,

2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the company as on Monday, the 17th day of June, 2019 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with the Explanatory statement and Postal Ballot Form to all the members whose names are appearing on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 12th day of June, 2019. The Postal Ballot Notices are sent through e-mails to the members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant and through physical mode along with prepaid postage self addressed Business Reply Envelope to those members whose e-mail IDs are not registered with their respective Depositories Participants. The Postal Ballot Notices are sent for seeking the approval of the shareholders of the Company through Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

S. No. Description of the Resolution

ITEM NO. 1 - TO APPROVE THE GRANT OF LOAN

The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facilities to all its members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from Tuesday, 18th June, 2019 (10:00 a.m.) and ends on Wednesday, 17th July, 2019 (5:00 p.m.). The Board of Directors has appointed Mr. Akash Gupta, Company Secretary in Practice,

Membership No. 30099, C. P. No. 11038 as scrutinizer for conducting the postal Ballot

and e-voting process in fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Form should reach Scrutinizer not later than 5:00 p.m., 17th July, 2019. Postal Ballot Form received after 5:00 p.m., 17th July 2019 will not be considered as valid. Members whose names appear on the register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. June 12, 2019 will be considered for the purpose of voting.

A person who is not the member as on the cut-off date should treat this notice for nformation purpose only. Any member who does not receive the Postal Ballot Form may either e-mail to compsect@udtltd.com or may apply to Alankit Assignments Limited Company's Registrar and Share Transfer Agent / Company and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and Form may be downloaded from the website of the Company i.e. www.udtltdcom

The results of the postal ballot shall be declared by the chairman or any other person authorize in writing by the chairman on Friday, 19th July, 2018 and shall be communicated on the same day to the Stock exchange, Depository, registrar and share transfer agent and will also be displayed on the website of the Company i.e.

manual available to the CDSL website i.e. www.evotingindia.com. In case queries related to the postal ballot, the shareholder can address the queries to the: a) The Company Secretary, United Drilling Tools Limited, A-22, Phase-II, Noida

b) Mr. Mahesh Pandey, M/s Alankit Assignments Limited, 3E/7, Alankit Heights, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 Registrar and Share Transfer Agent by writing to him or through mail on maheshcp@alankit.com or call him on landline No. 011-42541956.

For and on Behalf of Board

Pramod Kr. Ojha Company Secretary

M. No. 8698 प्रपत्र आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

बिल्डटेक लिमिटेड U45400DL2007PTC168342) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-7. निम्न भू तल, अशोका निकेतन, दिल्ली-110092 में है, के मामले एतदृद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से

उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए

कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 17 जून, 2019 को आयोजित ईजीएम में पारित

विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मैमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा बी-7, निम्न भू तल, अशोका निकेतन, दिल्ली-110092 में स्थित उस पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों

के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग. 2रा तल. पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

तिथि: 17.6.2019 निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

निवासी: एच-96, शास्त्री नगर, मेरठ-250004, उत्तर प्रदेश भारत

फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 5वाँ तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158,

सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (ई), मुम्बई-400098 **जैसा कि,** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मै. फीनिक्स एआरसी प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 18-1 स्कीम ई के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा नीचे वर्णित सांविधिक उत्तराधिकारियों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

डीआईएन : 07178440

उक्त ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा सांविधिक उत्तराधिकारी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा सांविधिक उत्तराधिकारी तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का

विशेष रूप से ऋणधारकों सह-ऋणधारकों तथा सांविधिक उत्तराधिकारियों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथियों से आगे के ब्याज. लागतों तथा चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिये मै. फीनिक्स एआरसी प्रा.लि. (फीनिक्स ट्स्ट एफवाई 18-1 स्कीम ई के ट्स्टी के रूप में कार्यरत) के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा सांविधिक उत्तराधिकारियों, गिरवी सम्पत्ति, ट्रस्ट का नाम, बकाया देयता, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इस प्रकार है।

- 1	ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता,	प्रतिभूतियों का विवरण	1. कब्जा की तिथि
	ऋणखाता सं., ऋण राशि		2. मांग सूचना तिथि
			3. बकाया राशि (रु. में)
- 1	श्रीमती पुष्पा देवी (सह-ऋणधारक तथा श्री महेन्दर कुमार गुप्ता) (अब	एच नं. 135, टाइप एलआईजी, हाउसिंग बोर्ड	1. 14.6.2019
	मृत) के सांविधिक उत्तराधिकारी के रूप में तथा श्रीमती सुनेहरी देवी,	कॉलोनी, सेक्टर-23, माप 90 वर्ग यार्ड्स,	2. 28.3.2019
	श्री वरुण गुप्ता (श्री महेन्दर कुमार गुप्ता (अब मृत) ऋणधारक के	फरीदाबाद (हरियाणा)-121005 का सभी भाग	3. रु. 6305836.39 (रुपये तिड़ेस
	सांविधिक उत्तराधिकारी के रूप में) एवं श्री विशाल गुप्ता (द्वारा उनके	तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार है:	लाख पांच हजार आठ सौ छत्तीस तथ
	स्वामित्व अभिभावक श्रीमती पुष्पा देवी) सभीः एच. नं. 135, टाइप	उत्तरः एच. नं. 136/एलआईजी पूर्वः 30' चौड़ी	पैसे उन्तालिस मात्र) 28.03.2019
	एलआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद (हरियाणा)-	सड़क दक्षिणः एच. नं. 134/एल.आई.जी.	को बकाया तथा देय तथा उसके साध
	121005	पश्चिमः एच. नं. 10/एल.आई.जी. मार्टगैजर का	29.03.2019 से सम्पूर्ण भुगतान तव
	श्रीमती सुनहरी देवी एवं श्री विशाल गुप्ता, दोनों: खेवत नं. 196, खसरा	नामः महेन्दर कुमार गुप्ता, पुत्र स्व. सीताराम गुप्ता	लागतों एवं चार्जेज के साथ लागू द
.	नं. 17, पाली गाजीपुर रोड, सोहना रोड, ग्राम पाली, फरीदाबाद	(अब मृत) एवं पुष्पा देवी, पत्नी स्व. महेन्दर	पर आगे का ब्याज
	(हरियाणा)-121005	कुमार गुप्ता	
	ऋण खाता संख्याः 4010HL31748186, एवं 4010HL31748565		
- 1	स्वीकत ऋण गणि रु. 57.00.000/- (रुपये सनावन लाख) जिसमें		

वाकृत ऋण राशिः रु. 57,00,000/- (रुपय सत्तावन लाख) जिसम ऋण खाता सं. 4010HL31748186 के अंतर्गत रु. 18,00,000/- की ऋण तथा ऋण खाता सं. 4010HL31748565 के अंतर्गत रु.

प्राधिकृत अधिकारी

नई दिल्ली

In case of any queries/ grievances connected with the e-voting may refer to the user

United Drilling Tools Limited

वरुण बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड विनोद शर्मा

> (निदेशक) DIN: 03561744 कब्जा सूचना

फीनिक्स एआरसी प्रा. लि. (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 18-1 स्कीम ई के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये कृपया श्री लोकेश मित्तल (+91 83778099456 एवं 0120-6173760) से सम्पर्क करें।



JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana
 Corporate Office: Novotel & Pullman Hotel, Commercial Tower, 5th Floor,
 Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037
 Telephone: +91 11 45504550, Fax: +91 11 45504551
 Website: www.jaispring.com. CIN: L35911HR1965PLC004485

NOTICE

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2011-12 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Dear Member(s),

This is to inform you that pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), if a dividend remain unclaimed for a period of seven years then such dividend is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government. We regularly upload the details of such unclaimed or unpaid dividends on Company's website on www.jaispring.com so that the shareholders can check and claim their pending dividend(s) before transfer of unclaimed dividend amount to IEPF.

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer all such shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to IEPF Demat Account.

Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company
Unclaimed Dividend FY 2011-12 (Final)	September 18, 2019	On or before September 13, 2019

Please note that the Equity Shares on which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for consecutive seven years shall be transferred to IEPF Demat Account on the aforesaid due date. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF.

If you have not claimed your dividend for the last seven consecutive years and the amount(s) are lying unpaid/unclaimed against your folio/ demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email:

- (i) A formal letter duly signed by all the joint holders, if any
- (ii) Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and
- (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.

You are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares to the IEPF Demat Account by the aforesaid due without any further notice.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account.

Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Demat Account, you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount(s) and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www. iepf.gov.in.

In view of the foregoing, you are requested to take immediate actions by writing to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following address so that it should reach on or before September 13, 2019:

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent
Jamna Auto Industries Limited	Skyline Financial Services Private Limited
Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor,	D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New
Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity,	Delhi-110020
New Delhi-110 037	Ph. No.: 011-40450193-97
Contact No 011-45504550	Email: parveen@skylinerta.com; grievances@skylinerta.com
Email - praveen@jaispring.com	Contact Person: Mr. Parveen Sharma

For Jamna Auto Industries Ltd.

Sd/-Praveen Lakhera Company Secretary & Head- Legal

Place: New Delhi Date: June 10, 2019